



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1526]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 2006/पौष 5, 1928

No. 1526]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 2006/PAUSA 5, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2006

का.आ. 2151(अ).—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अंदर प्रधान आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, आई.एन.ए., विकास सदन, नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने/सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम और पता भी दें।

संशोधन :

जोन 'ओ' में बुलन्द मस्जिद क्षेत्र में 1.7 हेक्टे. भूमि के भूमि उपयोग को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 'कृषि एवं जल निकाय' से 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं' में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है :-

उत्तर — अराब.अड्डा और जी.टी.रोड को जोड़ने वाली नई सड़क
दक्षिण — निर्मित अनधिकृत कॉलोनी
पूर्व — निर्मित अनधिकृत कॉलोनी/9 मीटर चौड़ी प्रस्तावित सड़क
पश्चिम— डीएमआरसी भूमि, एचटी लाइन/13.5 मी. चौड़ी प्रस्तावित सड़क

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उक्त अवधि के दौरान सभी कार्य दिवसों में संयुक्त निदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, छठा तल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली में उपलब्ध रहेगा।

[सं. एफ. 9(10)99/एम.पी.]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 26th December, 2006

S.O. 2151(E).—The following modifications which the Central Government proposes to make in the Master Plan/Zonal Plan for Delhi are hereby published for public information. Any person having objections/suggestions with respect to the proposed modification may send the objections/suggestions in writing to the Principal Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, INA, New Delhi, within a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objection/suggestion should also give his/her name and address.

Modifications:

The change of land use of 1.7 Ha. land at Buland Masjid Area in Zone 'O' as per the description given below is proposed to be change from 'Agriculture & Water body' to 'Public and Semi-public facilities':

North — New Road linking ISBT and GT Road
South — Built-up Unauthorized colony
East — Built-up Unauthorized colony/9m wide proposed road
West — DMRC Land, H.T. Line/13.5m wide proposed road

A copy of the plan indicating the proposed modifications is available for inspection at the office of Jt. Director (MP), 6th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate on all working days within the period referred above.

[No. F. 9(10)99/MP]

V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum-Secy.